

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30जून, 2017

संख्या 36/एसटी-2 -- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा, माल की राज्य के भीतर प्रदायों पर, जिनका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त अनुसूची के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आता है, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य माल और सेवा कर से छूट प्रदान करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

क्रम	अध्यायउपशीर्ष/शीर्ष/	माल का विवरण
संख्या	टैरिफ मद	
1.	0101	जीवित गधे, खच्चर और हिन्नी
2.	0102	जीवित गोक्लीय प्राणी
3.	0103	जीवित स्अर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरे
5.	0105	जीवित कुक्कुट अर्थात् गैलस घरेलू जाति के मुर्गे, बतख़, हंस, टर्की और गिनि मुर्गे
6.	0106	अन्य जीवित प्राणी जैसे स्तनपायी, पक्षी, कीट
7.	0201	गोक्लीय प्राणी का मांस, ताज़ा और द्रुतशीतित
8.	0202	गोक्लीय प्राणी का मांस, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान

		में रखा हुआ है]
9.	0203	सुअर का मांस, ताज़ा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
10.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
11.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
12.	0206	गोक्लीय प्राणी, स्अर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी के खाद्य
12.	0200	अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो
		इकाई आधान में रखा हुआ है]
13.	0207	शीर्ष 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित
		या हिमशीतित हिमशीतित और जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से
		भिन्न]
14.	0208	अन्य मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित
		[हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
15.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या
		निष्कर्शित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो
		इकाई आधान में रखा हुआ है]
16.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या
		निष्कर्शित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धूमित [हिमशीतित
		से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
17.	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण, जल में रखा, शुष्कित या
		धूमित, मांस या मांस अवशिष्ट, से भिन्न इकाई आधान में रखे जाएंगे
18.	3	मछलीबीज, झींगाझींगी बीज़ जो पृसंस्कृत/संसाधित या हिमशीतित अवस्था में हैं
		या नहीं [अध्याय के अंतर्गत आने वाले ऐसे मालों से भिन्न 3, जिन पर 2.5
		प्रतिशत कर लागू है]
19.	0301	जीवित मछली
20.	0302	मछली, ताज़ी या द्रुतशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष 0304 के मछली कतले और
0.1	2004	अन्य मछली मांस नहीं है
21.	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे टुकड़े किया गया या नहीं),
22.	0306	ताजी या द्रुतशीतित क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी या द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया
22.	0300	कवच युक्त, जो भापन या जल में उबालकर पकाई गई है, जीवित, ताज़ी या
		द्रतशीतित
23.	0307	मोलस्क,चाहे कवच युक्त है या नहीं जीवित, ताजी, द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया
		और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
24.	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
	1	1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25.	0401	अल्ट्रा उच्च तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर ताज़ा दूध और
		पास्तुरीकृत दूध, जिसके अंतर्गत पृथक दूध, दूध और क्रीम हैं, जो सांद्रित
		नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं हैं ।
26.	0403	दही;लस्सी छाछ
27.	0406	छैना या पनीर, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं और
		जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
28.	0407	पक्षियों के अंडे कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए
29.	0409	इकाई आधान में रखे गए से भिन्न, प्राकृतिक मधु जिसका रजिस्ट्रीकृत
		ब्रांड नाम हो
30.	0501	मानव केश, अकर्मित, चाहे धुले या अभिमार्जित हैं या नहीं ; मानव केश
		के अपशिष्ट
31.	0506	सभी माल अर्थात् हडिडयां और सींग क्रोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत, केवल
		निर्मित अम्लोपचारित या (किन्तु आकार में आकर्तित) अजिलेटिवीकृत हैं,
		इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट
32.	90 0507	सभी माल अर्थात् खुर अवचूर्ण; सींग अवचूर्ण ; खुर, नखर, नख, और चोंच
		; मृगशश्रृंग; आदि
33.	0511	शुक्र जिसके अंतर्गत हिमशीतित शुक्र भी है
34.	6	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, कंद, जड़ें और वैसी ही चीज़ें ; कर्तित पुष्प
		और अलंकृत पर्ण समूह
35.	0701	आलूताजे या द्रुतशीतित
36.	0702	टमाटरताजे या द्रुतशीतित
37.	0703	प्याज, शैलट, लहसुन, लीक और अन्य लशुनी वनस्पतियां ;ताजी या
		द्रुतशीतित
38.	0704	बंदगोभी,फूलगोभी, कोहल्रबी, केल और उसी प्रकार के खाद्य व्रेसिका,ताजे
		या द्रतशीतित
39.	0705	लेट्यूस (साइकोरियम सभी जातियां) और कासनी (का सैटाइवालैक्टू),ताजे
		या द्रुतशीतित
40.	0706	गाजर, शलजम, सलाद च्कंदर, सेलसिफी, सेलेरिऐक मूली और वैसी ही
		खाद्य जड़ें ताजी या द्रुतशीतित
41.	0707	खीरादि और घेरिकन,ताजे या द्रतशीतित
42.	0708	कवचय्क्त या कवचरहित फलीदार वनस्पतियां,ताजी या द्र्तशीतित
43.	0709	अन्य वनस्पतियां,ताजी या द्रुतशीतित
44.	0712	शुष्क वनस्पतियां जो साबुत,कर्तित, कतरी गई या चूर्णित हैं,किन्तु और निर्मित नहीं हैं

45.	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं
		अथवा नहीं
46.	0714	मेनिओक,अरारुट, सेलद, जेरूसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़े
		और कंद जिनमें स्टार्च या इन्लिन की मात्रा अधिक है ताजे या द्रुतशीतित
		; साबुदाने कापिथ
47.	0801	नारियल, ताजे या शुष्कित चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
48.	0801	ब्राजील नट ताजे ,चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं या नहीं
49.	0802	अन्य दृढ़ फल ताजे, जैसे कि बादाम, हेज़लनट या फिलबर्ट,कोरिअस)
		(सभी प्रजातियां, अखरोट, चेस्टनट (निया सभी जातियांकास्टा), एरिका
		नटस् ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
50.	0803	केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है,ताजे या शुष्कित
51.	0804	छुहारा, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरूद, आम और मेंगोस्टीम, ताजे
52.	0805	निंबुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैडारिन (जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन और
		सटसूमसयी है); क्लेमेन्टाइन, विलिकंग और वैसे ही अन्य निंबुकुल
		हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अन्तर्गत पोमलोस भी हैं, नींबू (निंबुकुल
		लाइम, निंबुकुल लिमोनम) और लाइम (निंबुकुल आरन्टीफोलिया, निंबुकुल
		लैटिफोलिया), ताजे
53.	0806	अंगूर, ताजे
54.	0807	तरबूजादि और पपीते (जिसके अंतर्गत तरबूज है), ताजे
55.	8080	सेब, नाशपती और क्विन्स, ताजे
56.	0809	खुमानी, चैरी, आड़ु (जिसके अंतर्गत शफतालू हैं),आलू बुखारा और स्लो,
		ताजे
57.	0810	अन्य फल जैस की स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लागनबेरी,
		काली सफेद या लाल किशमिश तथा गूज़बेरी, करोंदा, बिलबेरी,और
		वैक्सीनियम वंश के अन्य फल,कीवी फल, डयूरियन्स,पर्सिमोन्स, अनार,
		इमली, सपोटा,(चीकू) ,शरीफा (अटा), बोर, लीची, ताजे
58.	0814	निम्बुकुल फल या तरबूजादि के छिलके (जिसके अंतर्गत तरबूज़ भी हैं),
		ताजे
59.	9	बीज किस्म के सभी माल
60.	0901	कॉफी बीन्स, अभर्जित
61.	0902	चाय की अप्रसंस्करित हरी पत्तियां
62.	0909	सौंफसफेद जीरा या काला जीरा के, धनिया, बडी सौंफ, बेडियन, बीज;
		हपुषा बेरा (की बीज क्वालिटी)
63.	10 11 0910	ताजी अदरक, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न

64.	10 30 0910	ताजी हल्दी, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
65.	1001	गेहूं और मेसलीन [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया
		है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
66.	1002	राई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका
		रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
67.	1003	जौ [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका
		रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
68.	1004	जई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका
		रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
69.	1005	मक्का (कार्न)[उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है
		और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
70.	1006	चावल [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और
		जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
71.	1007	ज्वारादि [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और
		जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
72.	1008	कुट्टु, मिलेट और कैनेरी बीज़ ; अन्य धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, रागी
		[उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका
		रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
73.	1101	गेहूं या मेसलीन का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में
		रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
74.	1102	गेहूं या मेसलीन के आटे से भिन्न,धान्य आटा [मक्का आटा (कार्न), राई
		आटा, आदि][उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और
		जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
75.	1103	धान्य, दलिया, अवचूर्ण और गुटिका [उनसे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट
		आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
76.	1104	धान्य दाना, तुष निकाले गए
77.	1105	आलू का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है
		और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
78.	1106	शीर्ष 0713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों का आटा (दालों), [1106 10
		10 के गवार अवचूर्ण और 1106 10 90 के गवार गोंद परिष्कृत से
		भिन्न], साब्दाने या शीर्ष 0714 की जडोंया कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों
		अर्थात हल्दी, सिंगाडे का आटा, आम का आटा आदि [उससे भिन्न जिसे
		किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम
		

79.	12	बीज क्वालिटी के सभी माल
80.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी है अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की
81.	1202	मूंगफली, जो भर्जित अन्यथा पकाई गई नहीं है, चाहे कवच रहित या टूटी
		ह्ई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
82.	1204	अलसी, चाहे टूटी ह्ई अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की
83.	1205	तोरिया या कोल्जा बीज़, चाहे टूटे हैं अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की
84.	1206	सूर्यमुखी के बीज़ चाहे टूटे हैं अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की
85.	1207	अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (अर्थात् ताड़फल और गिरी, बिनौले,
		एरंड के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसंभम बीज (करथोमस
		टिंकटोरियस), खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजाम्स, आमगुठली,
		नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
86.	1209	बीज, फल और किसी प्रकार के बीजाणू,जो बोने के लिए उपयोग में लाए
		जाते हैं
87.	1210	हाप कोन, ताजे
88.	1211	उस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल भी
		हैं), जिनका उपयोग मुख्यत सुगंध सामग्री, फार्मेसी में या कीटनाशी,
		फफ्रंदीनाशी के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे या
		द्रुतशीतित
89.	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना,ताजे
		या द्रुतशीतित
90.	1213	धान्य पुआल और भूसी, अनिर्मित चाहे काटी हुई, दलित, दावित या
		गुटिका के रूप में है अथवा नहीं
91.	1214	स्वीडन का शलजम, मंगोल्ड, चारे की जड़ें, सूखी घास, रिजका (फाअल्फा),
		क्लोवर, सेनफोइन, हरा चारा काले, ल्यूपिन,वैचिस और वैसा ही हरा चारा
		उत्पाद, चाहे वे गुटिका के रूप में हैं या नहीं
92.	1301	लाख और शल्क लाख
93.	40 90 1404	पान के पत्ते
94.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़) और पालिमरा गुड़
		सम्मिलत है
95.	1904	फुला हुआ चावल, जो समान्यत मुरी के नाम से ज्ञात है, सपाटित या कुटा
		हुआ चावल, जो समान्यत च्यूडा के नाम से ज्ञात है, सूखा चावल, जो
		समान्यत खोई के नाम से ज्ञात है, सूखा धान या चीनी अथवा गुड से
		विलेपित चावल, जो समान्यत मुर्की के नाम से ज्ञात है,
96.	1905	पापड़,चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, सिवाय तब के जब उसे उपभोग के

		लिए दिए जाते हैं
97.	1905	डबल रोटी सिवाय तब के जब उसे उपभोग (ब्रांडीकृत या अन्यथा) के लिए
		और पिज्जा ब्रेड के रूप में रखा जाता है
98.	2106	मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों जैसे धार्मिक स्थानों पर दिया
		जाने वाला प्रसाद
99.	2201	जल [वातित,खनिज, शुद्धीकृत, आसवित, चिकित्सीय, आयनिक, बैटरी,
		विखनिजीकृत और सीलबंद आधानों में विक्रय किए जाने वाले जल से
		भिन्न]
100.	2201	गैर अल्कोहाली टोडी, नीरा, जिसके अंतर्गत खजूर और पाम नीरा भी है
101.	90 90 2202	युनिट आधान में रखे हुए और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम वाले मृदु नारियल
		जल से भिन्न
102.	2302,2304 ,	जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है,
	2305,	कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य,सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक
	2306,2308,	और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया
	2309	केक
103.	00 00 2716	विद्युतीय ऊर्जा
104.	2501	सभी किस्मों के नमक
105.	2835	भरतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470:2002 के अनुरूप पशु खाद्य ग्रेड
		का डाइकैलशियम फासफेट (डीसीपी)
106.	3002	मानव रक्त और उसके संघटक
107.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
108.	3101	सभी माल और आर्गेनिक खाद [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान
		में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
109.	3304	काजल [काजल पैंसिल स्टिकों से भिन्न],कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आल्ता
110.	3825	नगर पालिक अपशिष्ट, मल स्लज, नैदानिक अपशिष्ट
111.	3926	प्लास्टिक चूड़ियां
112.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
113.	4401	जलावन काष्ठ,ईंधन काष्ठ
114.	4402	काष्ठ चारकोल (जिसके अंर्तगत कोष या दृढफल चारकोल भी है), चाहे वह
		संपीड़ित है अथवा नहीं
115.	4907/4802	न्यायिक, न्यायेतर स्टांप पेपर,न्यायालय फीस स्टांप, जब उनका सरकारी
		खजाने या सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रताओं द्वारा विक्रय किया जाए
116.	4907/4817	डाक संबंधी मदें जैसे सरकार द्वारा विक्रीत लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि
117.	4907/48	रुपये के नोट, जब उनका विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाए

119. 4901 मुद्रित पुस्तकें, जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें भी हैं 120. 4902 समाचार पत्र,पित्रकाए, नियत कालिक पित्रकाएं, चाहें चित्रनिरुपित हों अथवा नहीं या चाहें उनमें विज्ञापन सामग्री हो अथवा नहीं 121. 4903 बालकोंके लिए चित्र, ड्राइंग या रंगकारी पुस्तकें 122. 4905 सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवारमानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्रित 123. 5001 रेशम कीट रखना, कोया 124. 5002 अपरिष्कृत रेशम 125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेश 133. 63 अगरतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुसूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अंजार, जैसे फावड़े, शावल, ग्रेंती, कुदाल, हो, कांट और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के केंचा ; और कलम केंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्टण्यों किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (ल्यूतन मशीन)	118.	4907	चैक,ख्ली हुई या प्स्तक रूप में
120. 4902 समाचार पत्र,पत्रिकाए, नियत कालिक पित्रकाएं, चाहें चित्रनिरुपित हों अथवा नहीं या चाहें उनमें विजापन सामग्री हो अथवा नहीं 121. 4903 बालकोंके लिए चित्र, झाइंग या रंगकारी पुस्तके 122. 4905 सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवारमानचित्र , स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्धित 123. 5001 रेशम कीट रखना, कोया 124. 5002 अपिरकृत रेशम 125. 5003 रेशम अपिशष्ट 126. 5101 ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपिशष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेश, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युत्तित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेश 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमून्य धातु से बनी चूडियां के सिवाय) मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के आजार जैसे फावड़े, शावल, गैती, कुदाल, हो, कांट और पंजे ; कुल्हाइी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के केंचा ; और कलम केंची, दराती हंसिए, धास कर्तित, झाइ समाकर्तित, प्रकाष्ठणना और अन्य भीजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी			9 3 9
नहीं या चाहे उनमें विजापन सामग्री हो अथवा नहीं 121. 4903 बालकीके लिए चित्र, झुइंग या रंगकारी पुस्तकें 122. 4905 सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवारमानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मृदित 123. 5001 रेशम कीट रखना, कोया 124. 5002 अपरिष्कृत रेशम 125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 उन्न, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 उन्न या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युत्तित नहीं 132. 5305 नारियत, कचर रेश 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चृडियां, (बहुमूत्य धातु से बनी चृडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के 338. 8445 अंबर चरखा 340. 8445 अंबर चरखा 341. 8803 शर्ष संरखा (व्यूतन मशीन) 342. 8803 शर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्ज 343. 1444 8803 शर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्ज 344. 8803 शर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्ज			3 3
121. 4903 बालकॉके लिए चित्र, झुइंग या रंगकारी पुस्तकॅं सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवारमानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मृद्धित 123. 5001 रेशम कीट रखना, कोया 124. 5002 अपरिष्कृत रेशम 125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 ऊन, जो धृनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धृनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कचर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चृडियां, (बहुसूल्य धातु से बनी चृडियों के सिवाय) मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार, जैसे फावड़े, शावल, ग्रंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुत्हाड़ी, बांका और जैसे फावड़े, शावल, ग्रंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुत्हाड़ी, बांका और जैसे फावड़े, शावल, ग्रंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुत्हाड़ी, बांका और जैसे फावड़े, शावल, ग्रंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुत्हाड़ी, बांका और जैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कँचा ; और कलम कँची, दराती हंसिए, धास कर्तित, झाड़ समाकर्तित, प्रकाष्टफान और अन्य अौजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी	120.	4302	
122. 4905 सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवारमानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मृद्वित 123. 5001 रेशम कीट रखना, कोया 124. 5002 अपरिष्कृत रेशम 125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अट्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुसूत्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार, जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांट और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के केंचा ; और कलम केंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्टण्णन और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्ज	121	4903	
पटलस, दीवारमानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्रित 123. 5001 रेशम कीट रखना, कोया 124. 5002 अपरिष्कृत रेशम 125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 उन्न, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 उन्न या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुसूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अंजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाइ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठणन और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्ज 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्ज 142. 9021 अवण सहायिकी			Ÿ
123. 5001 रेशम कीट रखना, कोया 124. 5002 अपरिष्कृत रेशम 125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 उन्न, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 उन्न या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुसूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड समाकर्तित्र, प्रकाष्ठणना और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जं	122.	4903	
124. 5002 अपरिष्कृत रेशम 125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 उन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थून प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 उन या सूक्ष्म या स्थून प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 311. 5303 जूट रेश, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अन्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेश 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुसूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, धास कर्तित्र, झाड समाकर्तित्र, प्रकाष्ठणना और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्ज 142. 9021 श्रवण सहायिकी	123.	5001	
125. 5003 रेशम अपशिष्ट 126. 5101 जन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 जन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युत्तित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जं 142. 9021 श्रवण सहायिकी	124.	5002	
126. 5101 ज्ञन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 127. 5102 सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 ज्ञन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुसूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के केंचा ; और कलम केंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष वान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे	125.	5003	Č
127. 5102 स्क्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है 128. 5103 जन या स्क्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के केंचा ; और कलम केंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड समाकर्तित्र, प्रकाष्ठणान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे	126.	5101	ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है
128. 5103 उन या स्क्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट 129. 52 गांधी टोपी 130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तिज, झाड़ समाकर्तिज, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे	127.	5102	
130. 52 खादी सूत 131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुसूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अंजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाइ समाकर्तित्र, प्रकाष्ट्रफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे	128.	5103	
131. 5303 जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं 132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमृल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गेंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाइ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे	129.	52	गांधी टोपी
132. 5305 नारियल, कयर रेशे 133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचािलत या पशुओं द्वारा चािलत उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, िकसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाइ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,िजनका कृषि, उद्यान कृषि, वािनकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुऊँ 142. 9021 श्रवण सहायिकी	130.	52	खादी सूत
133. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के ओजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी	131.	5303	जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं
134. 6703 मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित 135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लेंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूडियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के ओजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें 142. 9021 श्रवण सहायिकी	132.	5305	नारियल, कयर रेशे
135. 40 00 6912 मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप 136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, िकसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,िजनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी	133.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
136. 7018 कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों के सिवाय) 137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (ट्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जं 142. 9021 श्रवण सहायिकी	134.	6703	मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित
137. 8201 मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी	135.	40 00 6912	मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप
अौजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी	136.	7018	कांच की चूडियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों के सिवाय)
बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जं 142. 9021 श्रवण सहायिकी	137.	8201	मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के
कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाइ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी			औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी,
अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है 138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जे 142. 9021 श्रवण सहायिकी			बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और
138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें 142. 9021 श्रवण सहायिकी			कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और
138. 8445 अंबर चरखा 139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतिरक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतिरक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें 142. 9021 श्रवण सहायिकी			अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता
139. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन) 140. 8802 60 00 अंतिरक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतिरक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें 142. 9021 श्रवण सहायिकी			है
140. 8802 60 00 अंतिरक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतिरक्ष यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें 142. 9021 श्रवण सहायिकी	138.	8445	अंबर चरखा
यान प्रक्षेपण यान 141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें 142. 9021 श्रवण सहायिकी	139.	8446	हथकरघा (व्यूतन मशीन)
141. 8803 शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें 142. 9021 श्रवण सहायिकी	140.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष
142. 9021 श्रवण सहायिकी			यान प्रक्षेपण यान
	141.	8803	शीर्ष संख्या 8801 के माल के पुर्जें
143. 92 देशीहस्तिनिर्मित वाद्य यंत्र	142.	9021	श्रवण सहायिकी
	143.	92	देशीहस्तनिर्मित वाद्य यंत्र

144.	9603	सरकंईं और फूल बहारी झाड़ू से बने मोढ़े
145.	9609	स्लेट पैंसिलें और चाक स्टिक
146.	00 00 9610	स् लेटें
147.	9803	यात्री सामान
148.	अन्य अध्याय	पूजा सामग्री, अर्थात :-
		(i) रूद्राक्ष् माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय के गोबर, देशी घी,
		दूध और दही का मिश्रण);
		(ii) पवित्र धागा (जो सामान्यत यज्ञोपवित के नाम से ज्ञात है);
		(iii) लकड़ी की खड़ाउ;
		(iv) पंचामृत;
		(v) धार्मिक संस्थाओं द्वारा विक्रीत भभूति;
		(vi) अंब्राडीकृत शहद (प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य);
		(vii) दीये के लिए बाती;
		(viii) रोली;
		(ix) कलावा (रक्षासूत्र);
		(x) चंदन टीका;
149.	-	राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न, किसी
		व्यक्ति द्वारा लाटरी की प्रदाय, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी लाटरी की
		प्रदाय पर, जब इसकी प्रदाय, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय
		प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या
		स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नियुक्त लाटरी वितरक या
		विक्रय अभिकर्ता को की जाती है, समुचित ऐसी लाटरी की प्रदाय पर
		केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर, जैसी भी
		स्थिति हो, लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस अन्सूची के प्रयोजन के लिए,--

- (i) "इकाई आधान" पद से अभिप्राय है, कोई ऐसा पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरणार्थ टिन, केन बाक्स, जार, बोतल, थैला या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर), जो ऐसे पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या, जो ऐसे पैकेज पर उपदर्शित की गई है, रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
- (ii) "रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम" पद से अभिप्राय है, ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम, अर्थात् नाम या चिहन जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख जिसका ऐसे

विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सिहत या रिहत ऐसे नाम या चिहन का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है, और जो व्यापार चिहन अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन रिजिस्ट्रीकृत है।

- (iii) ''टैरिफ मद'', ''उपशोर्ष'', ''शोर्ष'' और ''अध्याय'' से अभिप्राय है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशोर्ष, शोर्ष और अध्याय।
- (iv) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी शामिल हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
- 2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी ।

संजीव कौशल अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग ।